

PTSC OLYMPIAD



www.ptscolympiad.org U.P. VITTVIHIN PRABANDAK FOUNDATION

PTSC OLYMPIAD

Hindi, English, Mathematics, Science, Reasoning, Social Science, GK & Current Affair

Class: 7

Model Paper

Total Questions: 100 | Time: 100 Min.

General Instructions (OMR Based Test)

- 1. This is an OMR based test, you will get additional 15 minutes to fill your details on the OMR sheet, before the start of the exam.
- 2. Write your name, school, class, etc. clearly on the OMR sheet.
- 3. The question paper comprises 10 sections:

Hindi (15 questions), English (15 questions), Mathematics (15 questions), Science (15 questions),

Reasoning (10 questions), Social Science (10), General Knowledge (10), Current Affairs (10),

- a. All questions are compulsory. There is no negative marking. Use of calculator is not permitted.
- b. This is a multiple choice-based question paper. Choose only one option for an answer.
- c. Use only HB pencil or Blue/Black ball point pen to mark your answers.
- d. Correct way of marking answer:

E.g., Q.1: Where do whales live?

B. River

C. Ocean

D. Glacier

As the correct answer is option C, you must darken the circle corresponding to option C on the OMR Sheet.



- 4. Rough work should be done in the blank space provided in this booklet.
- 5.Return the OMR Sheet to your teacher. You can take the question paper booklet along with you.
- 6.Attempt all questions. Good luck for the test.

Name:	
Roll No Contact No	

	Secti	on A: (Hilliun	
1."कठिन" का विलोम शब्द क्या है।	B. मुश्किल	C. जटिल	D. असंभव
A. सरल		C	
2. "जल" का पर्यायवाची शब्द कौन-स A. नीर	ा हा B. नदी	C. सागर	D. तरंग
3. "विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है।" — इस्	मों किया कौर सी है।		
3. "विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा हा" — ३५ A. विद्यार्थी	B. पुस्तक	С. पढ़	D. पढ़ रहा है
4. "नदी का पानी बह रहा है।" — यह र A. प्रश्नवाचक	B. विधानवाचक	C. नकारात्मक	D. विस्मयवाचक
5. "सूर्य पूर्व से निकलता है।" — इस व	गक्य में कर्ता कौन है।		
A. पूर्व	B. सूर्य	C. निकलता	D. से
6. "सुख-दुख" किस प्रकार का समास	है।		
A. तत्पुरुष	B. द्वंद्व	C. कर्मधारय	D. अव्ययीभाव
7. "निराश" शब्द में कौन-सा उपसर्ग है			
A. नि 🗸	В. Э	С. सु	D. परा
	कौन-मा अलंकार है।	TOTAL STREET,	
8. "कमल जैसा सुंदर चेहरा" — इसमें A. रूपक	B. उपमा	C. अनुप्रास	D. अतिशयोक्ति
	B. O'l'II		
9. "अति" शब्द का अर्थ क्या है।		С. कम	D. केवल
A. थोड़ा	B. बहुत 🖊	C. 494	D. Taki
 "तूफान उठना" मुहावरे का अर्थ है। 			- }- free
A. हवा चलना	B. बड़ा झगड़ा होना 🕜	C. बारिश आना	D. पेड़ गिरना
1."खेलना" शब्द किस भाषा वर्ग का	· है।		
A. संज्ञा	B. सर्वनाम	C. क्रिया /	D. विशेषण
2. "विद्या" शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलि	iग।		
A. पुल्लिंग	B. स्त्रीलिंग /	C. नपुंसकलिंग	D. दोनों
3. "गृहकार्य" में कौन-सी संधि है।	n um rifer	C. विसर्ग संधि	D. कोई नहीं
A. अच् संधि	B. यण् संधि	C. 14(11(114	2
4. "राम ने गाना गाया।" — इस वाक्र	य का काल कौन-सा है।		
A. वर्तमान काल 🖊	B. भूतकाल	C. भविष्य काल	D. आज्ञा काल
5."जिसे सब प्रिय मानें" — इसका ए	क शब्द क्या होगा।		
A. सर्वप्रिय /	B. सर्वज्ञ	C. सर्वशक्तिमान	D. सर्व
	Section	A: (English)	
	500.00	(
6. Choose the correctly spelt wo	ord:		
A. Enviroment	B. Environment	C. Envaironment	D. Environmment
7. Choose the correct synonym			
A. Coward	B. Bold	C. Weak	D. Shy
8. Choose the antonym of Ancie			
A. Modern	B. Old	C. Past	D. Historic
9. Choose the correct tense form		0.1.00	2.11.000
Che has been all	hafam dinnan		

		00111	D. finishes
A. finish	B. finishing	C. finished	D. Illishes
20. Fill in the blank with the correct	t article:		
He is honest man.	B. an	C. the	D. no article
A. a 21. Choose the correct preposition:		C. the	
THE CHILD STATE OF THE STATE OF	B. over	C. under	D. between
A. on 22. Change into passive voice:	B. Over	C. under	
Rita writes a letter.			
A. A letter is written by Rita,			
B. Rita is written by a letter			
C. A letter writes Rita.			
D. A letter was written by Rita.			
23. Change into active voice:			
The cake was baked by the chef.			
A. The chef bakes the cake.			
B. The chef baked the cake.			
C. The chef baking the cake.			
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
D. The chef is baking the cake. 24. Choose the correct form of verb			
They playing football yeste		C	D. is
A. are	B. were /	C. was	D. IS
25. Choose the correct phrasal verb			
He could not the noise in th		C 65	D
A. put on	B. put up with	C. put off	D. put in
26. Choose the correct meaning of the	he idiom: A piece of cak		
A. Something very easy		B. A slice of cake	
C. A difficult task		D. A sweet dish	
27. Choose the correct adjective form	n:		
This is the building in our to	own.		
A. tall B. tall	er	C. tallest /	D. more tall
28. Choose the correct conjunction:			
He will come it rains or	not.		
A. although B. who	ether	C. but	D. because
9. Choose the correct question tag:			
You can swim,?			
A. can't you B. can	VOII	C. do you	D. didn't you
		C. do you	D. didii t you
0. Choose the correct word to fill th			
He is good playing chess.			
A. on B. at		C. with	D. in
Commence of the second			
The second secon	Section:	B (Mathematics)	
. A double bar graph compares boy	ys and girls participati	ing in sports. If 60 boys	and 40 girls play cricket, the difference is:
	B. 20	C. 30	D.40
	,		
. The mean of 4 numbers is 10. If a			
	3. 11	C. 12	D.14
			Class 8 is 3.5 cm long and represents 140
students. What is the length of the	e bar for Class 9 which	h has 200 students?	
	3. 5 cm	C. 6 cm	
L	J. J CIII	C. O CIII	D. 7 cm

			res for Monday to Thursday are 22, 25, 23, 26,	
Friday's temperature is:	B. 22	C. 24	D. 26	
A. 20 5. The mode of the data 12, 1				-
	B. 15	C. No Mode	D. 20	
A. 12 6. The range of 10, 15, 20, 25			range is:	
		C. 30	D. 35	1
A. 20	B. 25			
7. The range of the data 21, 6		C. 21	D. 25	
A. 6	B. 19	like cricket while rest dis	slike it. From these students, one is chosen at	1
8. In a survey of 500 students	hat the above student	dislike cricket is		
random. The probability t		3	$D.\frac{6}{35}$	
A. 19	B. $\frac{6}{25}$	C. $\frac{3}{25}$	35	
9. If $x = 1$ and $y = 2$, then x^2y			D 6	
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6	100
0. If $4^x = 64$, then find the val	tue of 12 ^{2x-6}		D.4	
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4	io of
1. A class has girls and boys	in a ratio of 4:5, Amon	g the girls, the ratio of m	nathematics to physics students is 3:1. If the rat	
mathematics and physics	students in the entire c	lass is 3:2, then what per	centage of class comprises girls studying	
mathematics?				
	B. 30%	C. 25%	D. 18%	PF
A. 55.5%	itive even numbers are	24. If the smallest of the	three numbers is n, then find the largest numb	et.
A. 6	to make 100 notabooks	. How many sheets will b	pe required to make 12 notebooks?	
	P 200	C. 120		
A. 180 4. The product of two numbers.	born in 16/2 If any -541		and the other number.	
4. The product of two number	pers is 10/3. If one of th	C. 9/13	D. 16/9	
A. 1/13	B. 8/13	diagonals are perpendi	cular to each other and it satisfies all the propo	erties (
5. A student observed a qua	adrilateral in which the	culagonals are perpendi		
a rectangle. What type of	f quadrilateral, is it?			
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		0.0	D. Dorollologram	
A Pastanala	B. Rhombus	C. Square	D. Parallelogram	
A. Rectangle			D. Paranetogram	
A. Rectangle		C. Square	D. Paranetogram	
	Sec	ction: D (Science)		
6. Which of the following is	Sec s not correctly poured?	etion: D (Science) P. B. Saprophytic	c-mushroom.	
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem T	Second correctly poured?	etion: D (Science) P. B. Saprophytic		
A. Autotrophic-Neem T	s not correctly poured? Tree.	etion: D (Science) B. Saprophytic D. Insectivoro	c-mushroom. ous-Venus Flytrap.	
A. Autotrophic-Neem T C. Parasitic - Pitcher Pl	Second to second the second the second to second the second to second the second the second to second the second t	B. Saprophytic D. Insectivoro	c-mushroom. ous-Venus Flytrap. thesis?	
A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Plant. A. Stroma.	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana.	B. Saprophytic D. Insectivoro rb sunlight for photosyn C. Guard plan	c-mushroom. pus-Venus Flytrap. thesis? nts. D. Midrib.	
A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Plant. A. Stroma.	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana.	B. Saprophytic D. Insectivoro rb sunlight for photosyn C. Guard plan O2 level in atmosphere	c-mushroom. bus-Venus Flytrap. thesis? hts. D. Midrib.	
A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Plant. A. Stroma. 8. Which structure helps p	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana.	B. Saprophytic D. Insectivoro rb sunlight for photosyn C. Guard plan O2 level in atmosphere	c-mushroom. ous-Venus Flytrap. thesis? ots. D. Midrib. ?	Jutier
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem T C. Parasitic - Pitcher Pl 7. At what site in leaf cells A. Stroma. 8. Which structure helps p	Second correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. blants balance co2 and	B. Saprophytic D. Insectivoro rb sunlight for photosyn C. Guard plan O2 level in atmosphere	c-mushroom. ous-Venus Flytrap. thesis? ots. D. Midrib. ?	lution
A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Plant. A. Stroma. B. Which structure helps por A. Guard cells. G. Given figure shows the control of the structure helps por A. Guard cells.	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. blants balance co2 and B. Roots colour changes when C	B. Saprophytic D. Insectivore rb sunlight for photosyn C. Guard plan O2 level in atmosphere	c-mushroom. bus-Venus Flytrap. thesis? hts. D. Midrib.	dution
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Pl 7. At what site in leaf cells A. Stroma. 8. Which structure helps p A. Guard cells 19. Given figure shows the o	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. blants balance co2 and B. Roots colour changes when C	B. Saprophytic D. Insectivore rb sunlight for photosyn C. Guard plan O2 level in atmosphere C. Xylem Ce China rose indicator is a	c-mushroom. ous-Venus Flytrap. thesis? ots. D. Midrib. ? Ils D. Haustoria dded in test tubes I, H and III. Identify the so	dution
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem T C. Parasitic - Pitcher Pl 7. At what site in leaf cells A. Stroma. 8. Which structure helps p	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. blants balance co2 and B. Roots colour changes when C	B. Saprophytic D. Insectivoro rb sunlight for photosyn C. Guard plan O2 level in atmosphere C. Xylem Ce China rose indicator is a (Magenta) (No colour change)	c-mushroom. bus-Venus Flytrap. thesis? ats. D. Midrib. Plus D. Haustoria dded in test tubes I, II and III. Identify the so	lution
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Pl 7. At what site in leaf cells A. Stroma. 8. Which structure helps p A. Guard cells 19. Given figure shows the o	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. clants balance co2 and B. Roots colour changes when Co	B. Saprophytic D. Insectivoro rb sunlight for photosyn C. Guard plan O2 level in atmosphere C. Xylem Ce China rose indicator is a (Magenta) (Green change)	c-mushroom. ous-Venus Flytrap. thesis? ots. D. Midrib. ? Ils D. Haustoria dded in test tubes I, H and III. Identify the so	lution
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Pl 7. At what site in leaf cells A. Stroma. 8. Which structure helps p A. Guard cells 19. Given figure shows the o	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. clants balance co2 and B. Roots colour changes when Cond III.	B. Saprophytic D. Insectivore The sunlight for photosyn C. Guard plan C. Kylem Ce China rose indicator is a (Magenta) (No colour change) I Ugar Line Under the sunline water	c-mushroom. bus-Venus Flytrap. thesis? ats. D. Midrib. ? Ils D. Haustoria dded in test tubes I, II and III. Identify the so III Baking powder	lution
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Pl 7. At what site in leaf cells A. Stroma. 8. Which structure helps p A. Guard cells 19. Given figure shows the o	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. clants balance co2 and B. Roots colour changes when Cond III.	B. Saprophytic D. Insectivoro The sunlight for photosyn C. Guard plan C. Xylem Ce China rose indicator is a (Magenta) (No colour change) Il Lime	c-mushroom. ous-Venus Flytrap. thesis? ots. D. Midrib. Plls D. Haustoria dded in test tubes I, II and III. Identify the so III Baking powder Vinegar	lution
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Pl 7. At what site in leaf cells A. Stroma. 8. Which structure helps p A. Guard cells 9. Given figure shows the o	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. clants balance co2 and B. Roots colour changes when Co ad III.	B. Saprophytic D. Insectivoro The sunlight for photosyn C. Guard plan C. Kylem Ce China rose indicator is a (Magenia) (No colour change) I II ugar Lime olution water Lemon olution juice Sugar Lime Sugar Lime Sugar Lime Sugar	c-mushroom. bus-Venus Flytrap. thesis? ats. D. Midrib. ? Ils D. Haustoria dded in test tubes I, II and III. Identify the so III Baking powder	lution
6. Which of the following is A. Autotrophic-Neem To C. Parasitic - Pitcher Pl 7. At what site in leaf cells A. Stroma. 8. Which structure helps p A. Guard cells 9. Given figure shows the o	s not correctly poured? Tree. lant. does chlorophyll absor B. Grana. clants balance co2 and B. Roots colour changes when Co ad III.	B. Saprophytic D. Insectivore The sunlight for photosyn C. Guard plan C. Kylem Ce China rose indicator is a (Magenta) (Magenta) (Magenta) (Magenta) (Green change) I II ugar Lime water ugar Lemon olution juice Sugar	c-mushroom. bus-Venus Flytrap. thesis? bus. D. Midrib. Plls D. Haustoria dded in test tubes I, H and III. Identify the so III Baking powder Vinegar Lemon	

50. Which of the following solution			P.L.
A. Vinegar.	B. Lime water.	C. Curd.	D. Lemon Juice.
51. Which salt is acidic in nature?	The state of the s	The Real Street, Stree	D KCI
A. NaCl.	B. NH ₄ Cl.	C. Na ₂ So ₄ .	D. KCl.
52. In which of the following circui	its bulb will glow?		
10		D H	
A		В.	
-		L00 0	
N+		D	
C.		D.	
53. A fuse wire is made of alloy.		N	
A. Nichrome.		B. Tin-lead.	
C. Manganin.		D. Constantan.	
54. Biotic factors are the:			male and the second sec
A. Non-living parts of an ecos		B. Weather and Clir	mate.
C. Living organisms in an ecos	system.	D. None of these	
55. Objects that emit light are:			D.T.
A. Illuminated	B. Luminous	C. Opaque	D. Transparent
56. What does the Golgi apparatus	s do?		
A. Breaks down food		B. Makes protein	
C. Directs cell activity		D. Moves proteins	
57. These two factors determine the	e strength of the forc		
A. Speed and light.			
B. How fast the objects are go	ing and on what plane	t.	
C. How big the objects are and			
D. How hard the surfaces push			
58. The best definition of force is:	370		
A. A push or pull.		B. Stored energy.	
A. A push or pull. C. Energy in motion.		D. Anything that ta	ikes up space.
C. Energy in motion. 69. Which plant structure perform	s most of the photos		
	B. Stems	C. Leaves	D. Flowers
A. Roots Of Thermal energy can be transfer		C. Ecuves	AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF
0. Thermal energy can be transfer	a by:	R Converti	
A. Conduction only		B. Convection only	
C. Radiation only		D. Conduction, Co	onvection & Radiation
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		R (Person)	
	Section:	B (Reasoning)	
		months of the	100 TO
	m the top and Rahul	ranks 6" from the bott	tom. If there are 12 students between them,
	The second second second second		
then the total number of student			
	B. 25	C. 30	D. 27
then the total number of student A. 28	B. 25	C. 30	
A. 28 Arrange the given word in a me	B. 25 eaningful logical orde	C. 30	D. 27
A. 28 Arrange the given word in a me	B. 25 eaningful logical orde	C. 30 ler and then select the a EPHANT 5. FROG	D. 27 appropriate Sequence from the given options.
A. 28 Arrange the given word in a me 1. TIGER 2. ANT 3. RA A. 5, 3,1, 2, 4	B. 25 eaningful logical orde ABBIT 4. ELE B. 2, 5, 3, 1, 4	C. 30 ler and then select the a EPHANT 5. FROG C. 3, 2, 5, 4, 1	D. 27
A. 28 Arrange the given word in a me 1. TIGER 2. ANT 3. RA A. 5, 3,1, 2, 4 If today is Wednesday, then who	B. 25 eaningful logical orde ABBIT 4. ELE B. 2, 5, 3, 1, 4 hat day will be after 2	C. 30 ler and then select the a EPHANT 5. FROG C. 3, 2, 5, 4, 1 23 days?	D. 27 appropriate Sequence from the given options. D. 1, 5, 3, 2, 4
A. 28 Arrange the given word in a me 1. TIGER 2. ANT 3. RA A. 5, 3,1, 2, 4 If today is Wednesday, then who	B. 25 eaningful logical orde ABBIT 4. ELE B. 2, 5, 3, 1, 4 eat day will be after 2 B. Monday	C. 30 ler and then select the a EPHANT 5. FROG C. 3, 2, 5, 4, 1 23 days? C. Saturday	D. 27 appropriate Sequence from the given options. D. 1, 5, 3, 2, 4 D. Friday
A. 28 Arrange the given word in a me 1. TIGER 2. ANT 3. RA A. 5, 3,1, 2, 4 If today is Wednesday, then who A. Sunday 43 boys are standing in a row far	B. 25 eaningful logical orde ABBIT 4. ELE B. 2, 5, 3, 1, 4 eat day will be after 2 B. Monday acing the North. Vish	C. 30 der and then select the a EPHANT 5. FROG C. 3, 2, 5, 4, 1 23 days? C. Saturday thal is 23 rd from the left	D. 27 appropriate Sequence from the given options. D. 1, 5, 3, 2, 4 D. Friday
A. 28 Arrange the given word in a me 1. TIGER 2. ANT 3. RA A. 5, 3, 1, 2, 4 If today is Wednesday, then wha A. Sunday 43 boys are standing in a row fa Five places to the left, then what	B. 25 eaningful logical orde ABBIT 4. ELE B. 2, 5, 3, 1, 4 eat day will be after 2 B. Monday acing the North. Vish	C. 30 der and then select the a EPHANT 5. FROG C. 3, 2, 5, 4, 1 23 days? C. Saturday thal is 23 rd from the left	D. 27 appropriate Sequence from the given options. D. 1, 5, 3, 2, 4 D. Friday
A. 28 Arrange the given word in a me 1. TIGER 2. ANT 3. RA A. 5, 3,1, 2, 4 If today is Wednesday, then who A. Sunday 43 boys are standing in a row fa	B. 25 eaningful logical orde ABBIT 4. ELE B. 2, 5, 3, 1, 4 eat day will be after 2 B. Monday acing the North. Vish	C. 30 der and then select the a EPHANT 5. FROG C. 3, 2, 5, 4, 1 23 days? C. Saturday thal is 23 rd from the left	D. 27 appropriate Sequence from the given options. D. 1, 5, 3, 2, 4 D. Friday
A. 28 Arrange the given word in a me 1. TIGER 2. ANT 3. RA A. 5, 3,1, 2, 4 If today is Wednesday, then wha A. Sunday 43 boys are standing in a row fa	B. 25 eaningful logical order ABBIT 4. ELE B. 2, 5, 3, 1, 4 hat day will be after 2 B. Monday acing the North. Vish at is his position from B. 26 th	C. 30 ler and then select the a EPHANT 5. FROG C. 3, 2, 5, 4, 1 23 days? C. Saturday hal is 23 rd from the left on the right end?	D. 27 appropriate Sequence from the given options. D. 1, 5, 3, 2, 4 D. Friday end. If he is shifted

			11 0
A. 1	B. 3	C. 4	D. 6
		d make the given equation cor	Tect:
	$4 \times 7 - 14 + 10 \div 12 = 5$		D ÷ and Y
A. X and +	B. + and -	C. ÷ and -	D. ÷ and X
	tenotes 'X', 'X'denotes '+	' and '+' denotes '+', then wha	at 15 the value of
23 × 5 - 10 + 2 ÷ 8?		0.00	D. 45
A. 40	B. 50	C. 35	
	re in the given sequence each		
preceded by an odd n	number but not immediately	tonored by 0:	
AN	6539783153495657936 B. One	C. Two	D. More than two
A. None Which of the following		C. Two d make the given equation tru	
. which of the following	g interchanges of signs would 21÷3+7×3-12=40	and Biven equation tru	
A. + and -	3-12-40	B. ÷ and ×	
A. + and - C. + and ×		D. ÷ and +	
	are there are the second		
. How many rectangles	are there in the figure given	Delow:	
Buckey Bridge			
A. 16	B. 17	C. 18	D. More than 18
A. 10	D. 17	C. 10	Color March Color
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधा- B. Equator (भूमध्य रेखा)	ो गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा)	h into Eastern and Western H नाम क्या है?	lemispheres?
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (ो गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (मकर रेखा)	नाम क्या है?	emispheres?
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधा B. Equator (भूमध्ये रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ	ो गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा)	नाम क्या है? nen exposed to sunlight?	emispheres?
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधा B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श	ो गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (मकर रेखा) uced by the human body wh	नाम क्या है? nen exposed to sunlight?	Iemispheres? D. Vitamin D
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श	ो गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A	ा गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3	ो गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय)	ा गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (पकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है?	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल)	ा गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (पकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है?	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल प्र	ा गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (पकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है?	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप अ A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल प्र C. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत)	ा गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है?	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल प्र C. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत)	त गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत)	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल प्र C. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत) Which country is known कौन-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति	ा गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) के रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत)	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C n?	D. Vitamin D
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल प्र C. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत) Vhich country is known कौन-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति A. India (भारत)	ा गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) के रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत) n for its policy of non-aligna ते के लिए प्रसिद्ध है? B. China (चीन)	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C ? ment? C. Russia (रूस)	
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल प्र C. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत) Which country is known कौन-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति A. India (भारत)	त गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) र्क रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत) n for its policy of non-align ते के लिए प्रसिद्ध है? B. China (चीन) d Environment Day celebra	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C ? ment? C. Russia (रूस)	D. Vitamin D
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल प्र C. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत) Which country is known कौन-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति L. India (भारत) which month is World क्षेष्ठ पर्यावरण दिवस किस म	त गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) के रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत) n for its policy of non-aligna ते के लिए प्रसिद्ध है? B. China (चीन) d Environment Day celebra	en exposed to sunlight? है? C. Vitamin C ? ment? C. Russia (रूस) ated globally?	D. Vitamin D D. United States (अमेरिका)
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल श C. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत) Which country is known कौन-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति A. India (भारत) In which month is World केश्व पर्यावरण दिवस किस म	त गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) के रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh ntरिर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत) n for its policy of non-aligna ते के लिए प्रसिद्ध है? B. China (चीन) d Environment Day celebra महीने में मनाया जाता है? B. June (जून)	नाम क्या है? nen exposed to sunlight? है? C. Vitamin C ? ment? C. Russia (रूस)	D. Vitamin D D. United States (अमेरिका)
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल क्रि. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत) Which country is known कौन-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति A. India (भारत) n which month is World केश्व पर्यावरण दिवस किस म	त गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) कि रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत) n for its policy of non-aligna ते के लिए प्रसिद्ध है? B. China (चीन) d Environment Day celebra महीने में मनाया जाता है? B. June (जून) nbol of water?	en exposed to sunlight? है? C. Vitamin C ? ment? C. Russia (रूस) ated globally?	D. Vitamin D D. United States (अमेरिका)
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Which vitamin is produ सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरला) C. Andes (एंडीज) D. Rockies (रॉकी पर्वत) Which country is known कौन-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति L. India (भारत) which month is World क्षेष्ठ पर्यावरण दिवस किस ह L. March (मार्च)	त गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) कि रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत) n for its policy of non-aligna ते के लिए प्रसिद्ध है? B. China (चीन) d Environment Day celebra महीने में मनाया जाता है? B. June (जून) nbol of water?	en exposed to sunlight? है? C. Vitamin C ? ment? C. Russia (रूस) ated globally?	D. Vitamin D D. United States (अमेरिका)
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricorn (Which vitamin is product सूर्य के प्रकाश में आने पर श A. Vitamin A Which mountain range कौन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A. Himalayas (हिमालय) B. Ural Mountains (यूरल क्रि) C. Andes (एंडीज) D. Rockies (ऍकी पर्वत) Which country is known कौन-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति L. India (भारत) which month is World क्षेष्ठ पर्यावरण दिवस किस म	त गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) कि रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh nरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत) n for its policy of non-aligna ते के लिए प्रसिद्ध है? B. China (चीन) d Environment Day celebra महीने में मनाया जाता है? B. June (जून) nbol of water?	en exposed to sunlight? है? C. Vitamin C :? ment? C. Russia (रूस) ated globally? C. September (सितंबर)	D. Vitamin D D. United States (अमेरिका) D. December (दिसंबर)
पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी A. Prime Meridian (प्रधान B. Equator (भूमध्य रेखा) C. Tropic of Cancer (कर्व D. Tropic of Capricom (Thich vitamin is product ये के प्रकाश में आने पर श A vitamin A hich mountain range तैन-सी पर्वतमाला यूरोप 3 A Himalayas (हिमालय) Ural Mountains (यूरल) Andes (एंडीज) Rockies (रॉकी पर्वत) nich country is known न-सा देश गुटनिरपेक्ष नीति India (भारत) which month is World ध पर्यावरण दिवस किस में March (मार्च) iat is the chemical syn i का रासायनिक संकेत क	त गोलार्ध में बाँटने वाली रेखा का न मध्यान्ह रेखा) कि रेखा) (मकर रेखा) need by the human body wh गरीर में कौन-सा विटामिन बनता B. Vitamin B separates Europe and Asia और एशिया को अलग करती है? पर्वत) n for its policy of non-aligna ते के लिए प्रसिद्ध है? B. China (चीन) d Environment Day celebra महीने में मनाया जाता है? B. June (जून) nbol of water?	en exposed to sunlight? है? C. Vitamin C ? ment? C. Russia (रूस) ated globally?	D. Vitamin D D. United States (अमेरिका)

77. Who wrote the Indian nation		Mana"?		
भारतीय राष्ट्रगान "जन गण मन"				
A. Rabindranath Tagore (स्वीन				
B. Bankim Chandra Chattopa		य)		
C. Sarojini Naidu (सरोजिनी नाय				
D. Harivansh Rai Bachchan (
78. What is the capital city of A				
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है?				D. Booth (TST)
	3. Melbourne (मेलबर्न)	C. Canberra (ব		D. Perth (पर्थ)
79. Which gas do plants absorb प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे वा	o from the atmosphere (युमंडल से कौन-सी गैस लेते	हैं?		
A. Oxygen (ऑक्सीजन)		B. Nitrogen (न		
C. Carbon Dioxide (कार्बन डाइ	ऑक्साइड)	D. Hydrogen (हाइड्रोजन)	
80. What is the hardest natural				
पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे	कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन	ı-सा है?		
A. Gold सोना I	3. Iron लोहा	C. Diamond	हीरा	D. Quartz क्वार्ट्ज
	Section: (G (Current Affair)	
81. India has set a target fiscal	deficit of what percent	of GDP for 2025-26	5?	
भारत ने 2025-26 के लिए जीडीप	री के कितने प्रतिशत राजको	षीय घाटे का लक्ष्य रख	ा है?	
	B. 4.4%	C. 5.0%		D. 6.0%
82. On May 7 2025, India cond	lucted its first nationwi	de civil defence moc	k drill since	1971 in how many districts?
7 मई 2025 को भारत ने 1971 के	बाद पहली बार देशव्यापी	नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रि	ल कितने जिल	ाम का?
	B. 200	C. 244		D. 300
83. The next national census in	India will include cast	e enumeration for t	he first time	since 1931.
भारत की अगली जनगणना में 19	31 के बाद पहली बार जाति	ते गणना शामिल की ज	एगा।	
	B. False गलत			20269
84. In 2025, India approved a p	rogramme to launch h	ow many surveillan	ce satellites i	rom 2026:
वर्ष 2025 में भारत ने 2026 से कि			ाकृत किया?	D. 75
	3. 52	C. 60	es detained f	
85. The Constitution (130th An	iendment) Bill 2025 pr	oposes that minister	rs detained i	or how many consecutive days may be
removed?		أن عم المارة	क्टो पर पंजी प	द में हराया जा मकता है?
संविधान (130वां संशोधन) विधेर		C. 30	रहन पर मत्रा प	D. 45
	3. 20		shish Indiam	
86. The historic sword of Mara मराठा शासक रघुजी भोंसले प्रथम	tha royal Raghuji Bho 1 की ऐतिहासिक तलवार 2	025 में भारत के किस	राज्य में वापस	आई?
A. Maharashtra(महाराष्ट्र)	3. Gujarat(गुजरात)	C. Rajasthan	(राजस्थान)	D. Madhya Pradesh(मध्य प्रदश)
37. In 2025, Reliance Industrie	s and Meta announced	a joint venture in	which sector	?
2025 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और मे	ाटा ने किस क्षेत्र में संयुक्त उ	पक्रम की घोषणा की?		
A. Renewable energy (नवीव	करणीय ऊर्जा)			
B. Artificial intelligence & Di	igital services (कृत्रिम व	बुद्धिमत्ता व डिजिटल सेव	ाएँ)	
C. Automobile manufacturing	ु(ऑटोमोबाइल निर्माण)			
D. Pharma research (दवा अनुसं				
88. Indian NGO Educate Girls v		al award in 2025?		
भारतीय संस्था एजुकेट गर्ल्स को				
A. Nobel Peace Prize (नोबेल श				
B. Ramon Magsaysay Award				
C. UNESCO Prize (यूनेस्को पुरस्				
D. Global Teacher Prize (ग्लोब				
D. Olovai Teacher Trize (*Cita	(I CIA(XIVA)			

2025 में भारत ने आयकर अधि		से बदल दिया है जो अप्रैल 2026 से	लागू होगा।		
A. True (सही)			. Partly True (आंशिक रूप से सही)		
C. Not Sure (निश्चित नहीं) D. False (गलत)					
90. The conference "Semicon I					
"सेमिकॉन इंडिया 2025" सम्मेल	9	न का बढ़ावा दना था?			
A. India Space Mission (মার B. India Semiconductor Mis					
C. India Green Energy Miss	ion (भारत हरित ऊर्जा मिशन)				
D. India Digital Mission (মা					
C. main Digital Vision (F (Social Science)			
91. Who was the first Mughal	Emperor of India?				
भारत का पहला मुग़ल बादशाह के					
A. Akbar	B. Babar	C. Humayun	D. Shah Jahan		
92. Which is the longest river	in India?				
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी	है?		201		
A. Yamuna	B. Ganga	C. Brahmaputra	D. Godavari		
93. Who is known as the "Fat	her of the Nation"?				
राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है?					
A. Mahatma Gandhi		B. Jawaharlal Nehru			
C. Sardar Patel		D. Dr. Ambedkar			
94. When did India get indepe	endence?				
भारत को स्वतंत्रता कब मिली?		D 26 January 1950			
A. 15 August 1947		B. 26 January 1950 D. 14 August 1948			
C. 2 October 1947		D. 14 August 1946			
95. Which continent is the lar					
दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क	B. Asia	C. Europe	D. Australia		
A. Africa		C. Lurope			
96. Who built the Taj Mahal? ताजमहल किसने बनवाया था?					
	B. Shah Jahan	C. Aurangzeb	D. Jahangir		
A. Akbar 97. Which is the national anim					
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है?	nai oi india.				
	B. Tiger	C. Lion	D. Deer		
A. Elephant 98. Which gas do plants take					
पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन					
A. Oxygen		B. Carbon dioxide			
C. Nitrogen		D. Hydrogen			
99. How many colors are ther भारतीय झंडे में कितने रंग होते हैं?	e in the Indian flag?				
A. Two	B. Three	C. Four	D. Five		
100. What is the shape of the	Earth?				
पृथ्वी का आकार कैसा है?					
A. Flat	B. Spherical	C. Square	D. Triangle		